

B.Com. (Part—II) Semester—III Examination
AUDITING

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

Note :— ALL sections and all questions are compulsory.

SECTION—A

1. Multiple choice questions. Only first answer will be assessed and allotted marks :—

- (1) The main object of an audit is :
 - (a) Detection and prevention of fraud and error
 - (b) Expression of opinion
 - (c) Depend on the type of audit
 - (d) Both (a) and (b)
- (2) After the completion of financial year, audit is called as _____.
 - (a) Continuous Audit
 - (b) Annual Audit
 - (c) Cash Audit
 - (d) Complete Audit
- (3) Balance Sheet audit does not include :
 - (a) Verification of assets
 - (b) Vouching of income and expenditure
 - (c) Examination of adjusting entries
 - (d) Routine checking
- (4) Which audit is compulsory by Act ?
 - (a) Statutory audit
 - (b) Annual audit
 - (c) Continuous audit
 - (d) None of these
- (5) Test check should be used when :
 - (a) The auditor has less time
 - (b) Large number of transactions
 - (c) Internal control is unsatisfactory
 - (d) None of the above
- (6) Salary is vouched on the basis of :
 - (a) Salary register
 - (b) Receipt
 - (c) Cash book
 - (d) Pay in slip
- (7) Telephone charges should be examined on the basis of :
 - (a) Agreement only
 - (b) Telephone Bill
 - (c) Cash Memo
 - (d) None of the above
- (8) The techniques of verification include :
 - (a) Inspection
 - (b) Observation
 - (c) Confirmation
 - (d) All the above
- (9) Removal of auditor can be done by :
 - (a) Accountant
 - (b) Shareholders
 - (c) Director
 - (d) None of the above

- (10) Appointment of Subsequent auditor is to be made by the shareholders at every :
- (a) AGM
 - (b) EOGM
 - (c) Board meeting
 - (d) Creditors meeting
- (11) As per section _____, the auditor has a right to sign the audit report :
- (a) Sec. 227(2)
 - (b) Sec. 227(3)
 - (c) Sec. 229
 - (d) None of these
- (12) First auditor of a newly formed company can be appointed by the Board of Directors within _____.
- (a) Two months
 - (b) One month
 - (c) Three months
 - (d) None of these
- (13) If the auditor after verifying the necessary documents and books of accounts is satisfied regarding the correctness of the accounts, he gives a _____.
- (a) Qualified report
 - (b) Negative report
 - (c) Clean report
 - (d) None of these
- (14) Place mentioned in the Auditor's report is :
- (a) the city of the registered office of the client
 - (b) the city at which the office of the auditor is maintained
 - (c) the city at which books of accounts are kept
 - (d) the city where the auditor drafted the audit report
- (15) When an auditor expresses his opinion that the financial statements do not exhibit true and fair view of the state of affairs of the company, his report is said to be _____.
- (a) Negative
 - (b) Disclaimer
 - (c) Qualified
 - (d) Clean
- (16) The _____ shows the extent to which the auditor has examined the books of accounts.
- (a) Scope of report
 - (b) Identification of report
 - (c) Opinion of report
 - (d) None of the above
- (17) Banking Companies carry business as per :
- (a) Banking Regulation Act
 - (b) Companies Act
 - (c) Co-operative Societies Act
 - (d) All of the above
- (18) Balance Sheet of a banking company is prepared in Form _____.
- (a) A
 - (b) B
 - (c) C
 - (d) F
- (19) Insurance business is regulated by :
- (a) IDRA
 - (b) BCA
 - (c) IRDA
 - (d) None of these
- (20) Provision of unexpired risk in case of fire Insurance is :
- (a) 40%
 - (b) 50%
 - (c) 100%
 - (d) 20%

1×20=20

SECTION—B

1. Explain the objects of Auditing. 4
OR
What is continuous audit ? 4
2. Explain the term 'Routine checking'. 4
OR
Explain the auditors' duties regarding Internal check system. 4
3. Explain the qualification of an auditor. 4
OR
'Auditor is not a barking dog but a watch dog'—explain it. 4
4. Explain the types of audit report. 4
OR
Which are the duties of auditor regarding Dividend ? 4
5. What are the duties of auditors regarding the audit of Banking ? Write in short. 4
OR
How you can take care while auditing Educational institution ? 4

SECTION—C

1. Write the advantages of Auditing. 8
OR
What are the types of Auditing ? 8
2. Which are the duties of auditor regarding audit programme ? 8
OR
Which are the duties of an auditor regarding internal check process ? 8
3. Explain the power of Company auditor. 8
OR
What are the Civil Liabilities of Company auditor ? 8
4. Explain the duties of an auditor regarding divisible profits. 8
OR
Write about "Audit report". 8
5. How you can audit an Insurance Company ? 8
OR
How you can audit a non-profitable Institution ? 8

B.Com. (Part—II) Semester—III Examination
AUDITING

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

सूचना :— सर्व विभागातील सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

विभाग—अ

1. बहुपर्यायी प्रश्नांच्या, विभाग अ मधील फक्त प्रथम प्रयत्नाला मुल्यांकित करण्यात येईल :-
- (1) अंकेक्षणाचा मुख्य उद्देश्य असतो :-
(अ) धोका आणि चुका शोधून काढणे व त्याला आळा बसविणे
(ब) मत प्रदर्शित करणे
(क) अंकेक्षणाच्या प्रकारावर आधारित
(ड) (अ) आणि (ब) दोन्ही
- (2) आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर केलेल्या अंकेक्षणाला _____ म्हणतात.
(अ) सतत अंकेक्षण (ब) वार्षिक अंकेक्षण
(क) रोख अंकेक्षण (ड) संपूर्ण अंकेक्षण
- (3) ताळेबंद अंकेक्षणात समाविष्ट होत नाही :
(अ) संपत्तीचे सत्यापन (ब) खर्च आणि उत्पन्नाचे प्रमाणन
(क) नोंदीच्या समायोजनाचे परिक्षण (ड) नियमित परिक्षण
- (4) कायद्यानुसार अनिवार्य केलेल्या अंकेक्षणाला _____ म्हणतात.
(अ) वैधानिक अंकेक्षण (ब) वार्षिक अंकेक्षण
(क) सतत अंकेक्षण (ड) यापैकी नाही
- (5) चाचणी परिक्षण केव्हा करायचे ?
(अ) अंकेक्षकाला वेळ कमी असेल (ब) मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार असेल तर
(क) अंतर्गत नियंत्रण समाधानकारक नसेल (ड) वरीलपैकी नाही
- (6) वेतनपत्रक कशाच्या आधारे प्रमाणित केले जाते ?
(अ) वेतन रजिस्टर (ब) पावती
(क) रोख बुक (ड) वेतन पावती
- (7) टेलीफोन शुल्क कशाच्या आधारे प्रमाणित केले जाते ?
(अ) करार (ब) टेलीफोन बील
(क) रोख पावती (ड) वरीलपैकी नाही
- (8) सत्यापनात समविष्ट होते :
(अ) निरीक्षण (ब) परिक्षण
(क) निश्चितीकरण (ड) वरीलपैकी सर्व
- (9) अंकेक्षकाला कोणाकडून काढले जाते ?
(अ) लेखापाल (ब) अंशधारी
(क) संचालक (ड) वरीलपैकी नाही

- (10) अंकेक्षकाची नियुक्ती अंशधारी द्वारे केली जाते :
- (अ) वार्षिक सभा (ब) विशेष सभा
(क) संचालक सभा (ड) ऋणकोची सभा
- (11) अंकेक्षण अहवालावर सही करण्याचा अधिकार अनु. _____ प्रमाणे.
- (अ) अनु. 227(2) (ब) अनु. 227(3)
(क) अनु. 229 (ड) यापैकी नाही
- (12) नविन कंपनी प्रथम अंकेक्षकाची नियुक्ती संचालक मंडळाद्वारे किती दिवसांच्या आत करण्यात येते ?
- (अ) दोन महिणे (ब) एक महिणा
(क) तीन महिणे (ड) वरीलपैकी नाही
- (13) लेखा पुस्तकांचे परिक्षण केल्यानंतर अंकेक्षक समाधानी होत असेल तर तो अहवाल देतो :
- (अ) मर्यादित (ब) नकारात्मक अहवाल
(क) स्वच्छ अहवाल (ड) यापैकी नाही
- (14) अंकेक्षण अहवालामध्ये स्थान दर्शविले जाते :
- (अ) ग्राहकाच्या पंजीकृत कार्यालयाचे शहर (ब) अंकेक्षकाच्या कार्यालयाचे शहर
(क) जेथे लेखा पुस्तके ठेवली जाते ते शहर (ड) अंकेक्षक जेथे अहवाल तयार करतो ते शहर
- (15) अंकेक्षक वित्तिय विवरणाशी सहमत होत नसेल तर अशा अहवालास म्हणतात :
- (अ) नकारात्मक अहवाल (ब) अस्विकृती अहवाल
(क) मर्यादित अहवाल (ड) स्वच्छ अहवाल
- (16) लेखा पुस्तकाचे परिक्षण केल्यानंतर अहवालात दर्शविले जाते :
- (अ) अहवालाची व्याप्ती (ब) अहवालाची ओळख
(क) अहवालाबाबतचे मत (ड) वरीलपैकी नाही
- (17) बँकींग कंपनी _____ कायद्याद्वारे सुरू केली जाते.
- (अ) बँक नियमन कायदा (ब) कंपनी कायदा
(क) सहकारी कायदा (ड) वरीलपैकी सर्व
- (18) बँकींग कंपनीचा ताळेबंद _____ या प्रारूपाद्वारे तयार करण्यात येतो.
- (अ) प्रारूप 'अ' (ब) प्रारूप 'ब'
(क) प्रारूप 'क' (ड) प्रारूप 'फ'
- (19) विमा व्यवसाय नियमित करण्यात येतो :
- (अ) IDRA (ब) BCA
(क) IRDA (ड) वरीलपैकी नाही
- (20) अग्नी विमा प्रव्याजीची मुदतपूर्व जोखिमची तरतुद _____ केली जाते.
- (अ) 40% (ब) 50%
(क) 100% (ड) 20%

1×20=20

विभाग—ब

1. अंकेक्षणाचे उद्देश्य स्पष्ट करा 4
किंवा
संतत अंकेक्षण म्हणजे काय ? 4
2. 'नैतीयक परीक्षण' स्पष्ट करा. 4
किंवा
अंतर्गत अंकेक्षणाबाबत अंकेक्षकाची कर्तव्य लिहा. 4
3. अंकेक्षकाची योग्यता लिहा. 4
किंवा
'अंकेक्षक रक्षक आहे, भक्षक नाही' स्पष्ट करा. 4
4. अहवालाचे प्रकार स्पष्ट करा. 4
किंवा
लाभांशाबाबत अंकेक्षकाची कर्तव्ये कोणती ? 4
5. बँकेचे अंकेक्षण करतांना अंकेक्षकाची कर्तव्ये कोणती ? थोडक्यात लिहा. 4
किंवा
शैक्षणिक संस्थांचे अंकेक्षण करतांना कोणती काळजी घ्यावयास हवी ? 4

विभाग—क

1. अंकेक्षणाचे फायदे लिहा. 8
किंवा
अंकेक्षणाचे प्रकार कोणते ? 8
2. अंकेक्षण कार्यक्रम बाबत अंकेक्षकाची कर्तव्ये कोणती ? 8
किंवा
अंतर्गत नियंत्रण पद्धती बाबत अंकेक्षकाची कर्तव्ये कोणती ? 8
3. कंपनी अंकेक्षकाचे अधिकार स्पष्ट करा 8
किंवा
कंपनी अंकेक्षकाचे दिवाणी दायित्व कोणते ? 8
4. वितरण योग्य लाभाबाबत अंकेक्षकाची कर्तव्ये लिहा. 8
किंवा
'अंकेक्षण अहवाल' बाबत लिहा. 8
5. विमांचे अंकेक्षण कसे कराल ? 8
किंवा
नफा न कमविणाऱ्या संस्थांचे अंकेक्षण कसे कराल ? 8

B.Com. (Part—II) Semester—III Examination
AUDITING

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— सभी विभाग के सभी प्रश्न छुड़ाना अनिवार्य है।

विभाग—अ

1. बहुपर्यायी प्रश्न, विभाग अ में से सिर्फ प्रथम प्रयास को ही अंकित किया जाएगा :—

- (1) अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है :
(अ) धोखा और गलती का अनुसंधान एवम् प्रतिबंध लगाना
(ब) मत प्रदर्शित करना
(क) अंकेक्षण के प्रकार पर निर्धारित
(ड) (अ) और (ब) दोनों
- (2) आर्थिक वर्ष खत्म होने के बाद किये जाने वाले अंकेक्षण को :
(अ) निरंतर ऑडिट
(ब) वार्षिक ऑडिट
(क) रोख ऑडिट
(ड) पूर्ण ऑडिट
- (3) तालेबंद अंकेक्षण में सम्मिलित नहीं होता :
(अ) संपत्ति का सत्यापन
(ब) व्यय और उत्पन्न का प्रमाणन
(क) प्रविष्टि की समयोजन का परीक्षण
(ड) नियमित परीक्षण
- (4) विधि द्वारा अनिवार्य अंकेक्षण :
(अ) वैधानिक अंकेक्षण
(ब) वार्षिक अंकेक्षण
(क) सतत अंकेक्षण
(ड) उपरोक्त नहीं
- (5) चाचणी परीक्षण कब किया जाता है ?
(अ) अंकेक्षक के पास समय नहीं होता
(ब) व्यवहार का प्रमाण ज्यादा हो तो
(क) अंतर्गत अंकेक्षण असमाधानकारक हो तो
(ड) उपरोक्त नहीं
- (6) वेतनपत्रक किस आधार पर प्रमाणित किया जाता है ?
(अ) वेतन रजिस्टर
(ब) पावती
(क) रोकड़ पुस्तक
(ड) वेतन पर्ची
- (7) टेलीफोन शुल्क किस आधार पर प्रमाणित किया जाता है ?
(अ) करार
(ब) टेलीफोन बिल
(क) रोकड़ पावती
(ड) उपरोक्त नहीं
- (8) सत्यापन में सम्मिलित होता है :
(अ) निरीक्षण
(ब) परीक्षण
(क) निश्चितीकरण
(ड) उपरोक्त सभी
- (9) अंकेक्षक को किसके द्वारा निकाला जा सकता है ?
(अ) लेखापाल
(ब) अंशधारी
(क) संचालक
(ड) उपरोक्त नहीं

- (10) अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारी के द्वारा की जाती है :
- (अ) वार्षिक सभा (ब) विशेष सभा
(क) संचालक सभा (ड) ऋणदाता की सभा
- (11) अंकेक्षण अहवाल में सही करने का अधिकार :
- (अ) धारा 227(2) (ब) धारा 227(3)
(क) धारा 229 (ड) उपरोक्त नहीं
- (12) नई कंपनी में प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा कितने दिन में किया जाता है ?
- (अ) दो महीने (ब) एक महीना
(क) तीन महीने (ड) उपरोक्त नहीं
- (13) लेखा पुस्तक के परीक्षण करने के बाद अंकेक्षक संतुष्ट होता है तो जो अहवाल देता है उसे :
- (अ) पात्रता अहवाल (ब) नकारात्मक अहवाल
(क) स्वच्छ अहवाल (ड) उपरोक्त नहीं
- (14) अंकेक्षण अहवाल में स्थान दर्शाया जाता है
- (अ) ग्राहक के पंजीकृत कार्यालय का शहर (ब) अंकेक्षक के कार्यालय का शहर
(क) जहां लेखापुस्तक रखी जाती वह शहर (ड) अंकेक्षक जहां अहवाल तैयार करता है वह शहर
- (15) अंकेक्षक वित्तीय विवरण के बारे में असमाधानी होता है तो उस अहवाल को :
- (अ) नकारात्मक (ब) अस्वीकरण
(क) मर्यादित (ड) स्वच्छ
- (16) लेखा पुस्तक का परीक्षण करने के बाद अहवाल में दर्शाया जाता है :
- (अ) अहवाल की व्याप्ति (ब) अहवाल की पहचान
(क) अहवाल के बारे में मत प्रदर्शित करना (ड) उपरोक्त नहीं
- (17) बैंकिंग कंपनी _____ विधिद्वारा निर्माण की जाती है।
- (अ) बैंक नियमन विधि (ब) कंपनी विधि
(क) सहकारी विधि (ड) उपरोक्त सभी
- (18) बैंक कंपनी की तालेबंद _____ इस फार्म द्वारा तैयार किया जाता है।
- (अ) प्रारूप 'अ' (ब) प्रारूप 'ब'
(क) प्रारूप 'क' (ड) प्रारूप 'फ'
- (19) बीमा व्यवसाय नियमित किया जाता है :
- (अ) IDRA (ब) BCA
(क) IRDA (ड) उपरोक्त नहीं
- (20) आग बीमा प्रव्याजी की मुदत पूर्व जोखिम की तरतुद _____ की जाती है।
- (अ) 40% (ब) 50%
(क) 100% (ड) 20%

1×20=20

विभाग—ब

1. अंकेक्षण के उद्देश्य स्पष्ट करें। 4
अथवा
निरंतर लेखा परीक्षण की संज्ञा स्पष्ट करें। 4
2. 'नैतिक परीक्षण' की संकल्पना स्पष्ट करें। 4
अथवा
आंतरिक लेखा परीक्षण में अंकेक्षक के कर्तव्य स्पष्ट करें। 4
3. अंकेक्षक की पात्रता लिखिए। 4
अथवा
'लेखा परीक्षक यह रक्षक है, भक्षक नहीं' स्पष्ट करें। 4
4. अहवाल के प्रकार स्पष्ट करें। 4
अथवा
लांभाश के बारे में लेखा परीक्षक के कर्तव्य बतायें। 4
5. बैंक लेखा परीक्षण से संबंधित लेखा परीक्षक के कर्तव्य बतायें। संक्षेप में लिखिये। 4
अथवा
शैक्षणिक संस्था के लेखा परीक्षण से संबंधित लेखा परीक्षक के कर्तव्य बतायें। 4

विभाग—क

1. लेखा परीक्षण के लाभ बतायें। 8
अथवा
लेखा परीक्षण के विविध प्रकार बतायें। 8
2. लेखा परीक्षण प्रक्रिया से संबंधित लेखा परीक्षक के कर्तव्य बतायें। 8
अथवा
आंतरिक जाँच प्रक्रिया से संबंधित लेखा परीक्षक के कर्तव्य बतायें। 8
3. निगम लेखा परीक्षक के अधिकार स्पष्ट करें। 8
अथवा
निगम लेखा परीक्षक के दिवानी दायित्व बतायें। 8
4. विभाज्य लाभ से संबंधित लेखा परीक्षक के कर्तव्य बतायें। 8
अथवा
'लेखा परीक्षण अहवाल' की जानकारी दें। 8
5. बीमा लेखा परीक्षण कैसे किया जाता है ? 8
अथवा
अव्यापारिक संस्था का लेखा परीक्षण कैसे किया जाता है ? 8

